



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25—जुलाई 1, 2005 (आषाढ़ 4, 1927)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25—JULY 1, 2005 (ASADHA 4, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2005

सं. एन-15/13/24/1/81-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के अधिनियम पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केन्द्रीय शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-2004 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केन्द्रीय शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

“केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।”

एस. थॉमस
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/24/1/81-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा दमन एवं दीव कर्मचारी राज्य बीमा नियम-2004 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ दमन एवं दीव राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“केन्द्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।”

एस. थॉमस

निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/15/1/2004-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा मेघालय कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1980 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ मेघालय राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“बार्निहाट क्षेत्र के अन्तर्गत बार्निहाट राजस्व सर्किल के राजस्व ग्राम-रंगसाकोना, आमजोक, तालोलकुची, नोरभंग, बासन्तीबारी, राजाबागान, 13 माइल, 14 माइल एवं 15 माइल के क्षेत्र।”

एस. थॉमस

निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2005

शुद्धि-पत्र

सं. एक्स-11/13/01/2004-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 21.03.2005 का संकल्प संख्या: एक्स-11/13/01/2004-यो. एवं वि. जो दिनांक 26.03.2005 को भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 के पृष्ठ संख्या 1286 में प्रकाशित हुआ है “पात्रता शर्तों” के नीचे उल्लिखित क्रमांक-3 निरस्त समझा जाए। “पात्रता शर्तों” में क्रम संख्या 4 से 8 का पुनर्संख्यांकन किया जाता है जिन्हें क्रम संख्या 3 से 7 पढ़ा जाए।

अजय दुआ

महानिदेशक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इन्डिया

या जाना है

कानपुर-208001, दिनांक 10 मई 2005

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 सी0 सी0 ए0 (4) (1)/2004-2005 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसारण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण दिनांक 01-10-2004 से हटा दिया गया है ।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
1.	030865	मि० रुद्र रबीन्द्रनाथ जमाल रोड, पटना 800001	6	014801	मि० गुप्ता श्री प्रकाश 353 मंगल पाण्डे नगर (कामर्शियल) मेरठ 250001
2.	037974	मि० मेहता नरपतचन्द 60, अजीत कालोनी, निकट बाल निकेतन स्कूल निकट कमला नेहरू गर्ल्स कालेज जोधपुर 342001	7.	016649	मि० राना गनेश कुमार 91 महारानी गायत्री देवी मार्केट जयपुर 302002
3.	008893	मि० राय रामदिलास सी-33/70-1 चन्द्र चित्तपुर वाराणसी	8.	017322	मि० जैन शिखरचन्द के बीयर सेफ मलेशिया (डब्लूएसएम) एसडीएन, बीएचडी लाट नं० 01, लेबोह हिसामुद्दीन सतु नार्थ कलंग स्ट्रेट इन्डस्ट्रियल एरिया 42000 पोर्ट कलंग मलेशिया
4.	009823	मि० मेहता बंशी धर आयोजन अपार्टमेन्ट द्वितीय तल, एस-7, ज्योतिनगर इक्सटेन्शन लाल कोठी स्कीम जयपुर 302005	9.	017767	मि० शर्मा त्रिवेश कुमार यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया रीजनल आफिस बी-100, यूनिवर्सिटी मार्ग बापू नगर जयपुर 302015
5.	010470	मि० चौबे फ्रेडरिक गेराल्ड 308, राजाराम मोहन राय काम्प्लेक्स, एम० जी० रोड, इन्दौर 452001			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
10.	017942	मि० पुरी राजीव डीजल इन्जेक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, 80 फिट रोड कानपुर 208005	17.	047908	मि० राज सलीम अकबर 59 न्यू सैफी नगर मानिक बाग रोड इन्दौर 452014
11.	033479	मि० भण्डारी अरविन्द एशिया पैक लिमिटेड 210-211 शुभम् कॉम्प्लेक्स 11-ए कुम्मा मार्ग न्यू फतेहपुरा उदयपुर 313004	18.	048244	मि० जैन अश्विनी कुमार 303/303 ए, बिल्डिंग नं० एच-2 मानसरोवररिद्धी गारडेन्स फिल्म सिटी रोड मलाड,(ई) मुम्बई 400097
12.	036486	मि० बिरला कैलाश चन्द महेश्वरी वस्त्र भण्डार पुराना चारभुजा मन्दिर जिला मेरता सिटी नागौर 341001	19	052294	मि० थरड चन्द्र कुमार एच/ओ श्री डी० कुब्जत 15-16 शिव कालोनी उदयपुर रोड हीरो हान्डा शो रूम के पीछे बंसवारा
13.	036843	मि० जैन मुकेश कुमार एस-50 रेशर प्लाजा, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग इन्दिरा बाजार जयपुर 302001	20	056573	मि० मंत्री चन्द्रमोहन बी-159 केन्द्रीय विहार सेक्टर -52, यू०पी० नोएडा
14.	042997	मि० संचेती शैलेन्द्र सराफों की पोली सराफा बाजार जोधपुर 342001	21	056651	मि० अग्रवाल गोपाल मित्तल भवन गौरीशंकर मन्दिर रोड रायगढ 496001
15.	046331	मि० पुरोहित राकेश जी-3/551 गुलमोहर कालोनी भोपाल 462016	22	057107	मि० नजीर इन्तखाफ 71 माया बाजार साउथ गेट गोरखपुर 273001
16.	047897	मि० बिरला राजेश ग्लोबस स्टोर्स प्रा० लि० 575/12 एम० जी० रोड इन्दौर 452001	23	057793	मि० डालमिया राजेश कुमार मेसर्स हिन्डात्को इन्डस्ट्रीज लि० रा मैटेरियल डिपार्टमेंट जि० सोनमद्र रेनूकूट 231217

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
24	059103	मि० खेतान सुनील कुमार मार्फत श्री एम०पी० खेतान पो० आ० दान्ता राजस्थान सिकार 332702	32	071196	मि० आनन्द द्वारका नाथ 59 अजीत कालोनी जोधपुर - 342001
25	060879	मि० धनानिया विकाश मार्फत रिलायबल रोडवर्क्स एच० बी० रोड कोकड रांची	33	071250	मि० सेठ संजय 26/82 गंगा ट्रेडिंग बिल्डिंग बिरहाना रोड, कानपुर 208001
26	062185	मि० अग्रवाला नारायण प्रसाद मार्फत आईसीआईसीआई बैंक लि० शास्त्री नगर धनबाद 828106	34	071398	मि० गर्ग संजय कुमार एफ० 591 कमला नगर आगरा 282004
27	070194	मि० झाला अनिलजीत जे/46 कृष्णा मार्ग सी स्कीम जयपुर 302001	35	071407	मि० गर्ग गोविन्दराम मार्फत श्री अनन्तराम गर्ग रेलवे स्टेशन रोड बियावर 305901
28	070559	मि० बसन्त राज मन्साली कॉमटेक्सटाइल (एचके) लि० ग्रहा इरामा सूट 7 डी०/ई० जे० एल० एच० आर० रसूना सैद ब्लाक एक्स -1 केव 1-2 जकार्ता 12950 जकार्ता	36	071417	मि० ठकुरिया दीपक 6, यसवन्त निवास रोड इन्दौर 452003
			37	071445	मि० अग्रवाल राजीव रायल गार्डन इस्टेट फ्लैट नं० बी एच 80 ई-12 सेक्टर -81 नोएडा 201301
29	070595	मि० गुप्ता ओमप्रकाश 30 सिवार कम्पाउन्ड अमेर रोड जयपुर 302002	38	071458	मि० अतुल प्रकाश मार्फत स्व० श्री के० सी० अग्रवाल नबाव मुहल्ला कांसगंज 207123
30	070940	मि० मन्साली अरविन्द सूरज 38 ए० भक्तसागर नेहरू पार्क सरदारपुरा जोधपुर 342003	39	071504	मि० राठी केदारमल मार्फत एफ-19, बसन्त विहार भीलवाड़ा 311001
31	070942	मि० पनगारिया ज्ञानमल 154, वकील कालोनी भीलवाड़ा 311001	40	071575	मि० पवन कुमार स्वरूप 296/8 संजय कुटीर आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ 276001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
41	071649	मि० मेहता अरविन्द 36-ए, सूरजनगर ईस्ट, सिविल लाइन्स जयपुर 302001	50	072668	मि० सोलंकी धर्मेन्द्र प्लॉट नं० 55 ब्लॉक-1 (ए-55) माडल टाउन, निकट पी एण्ड टी कालोनी जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर 302017
42	071717	मि० बाजपेयी प्रदीप कुमार ई-5, 104 अरेरा कालोनी, भोपाल 462001	51	072724	मि० भाटिया देवकी नन्दन 11/752 बसुन्धरा योजना (यू पी०) गाजियाबाद 201010
43	071733	मि० भार्गव राजकुमार 47 आनन्द भवन सूर्यपथ न्यू कालोनी, जयपुर 302001	52	072748	मि० मथानी गोपीचन्द्र प्रथम तल महावीर मार्केट एम० जी० रोड रायपुर 492001
44	071917	मि० गोडिका संजय डी-1 गनेश मार्ग बापूनगर नगर जयपुर 302015	53	072881	मि० अजमेरा सुरेन्द्र 3 एच ब्लॉक 20 लगुना सिटी लमटिया कोउलून हांगकांग
45	072025	मि० वर्मा दिनेश कुमार सत्या भवन खैलन्ड मार्केट अजमेर	54	072929	मि० लक्ष्म्या दिनेश चन्द्र न्यू रोड, नाथद्वारा 313301
46	072029	मि० गुप्ता अनिल कुमार 75/6 हालसी रोड कानपुर 208001	55	072948	मि० जैन अजय कुमार अजय भवन, गनेश रामनगर रायपुर 402001
47	072105	मि० मंघनानी अशोक कुमार 76 सिन्धी कालोनी बनी पार्क जयपुर 302016	56	072988	मि० खण्डेलवाल चन्द्रप्रकाश 112-114 मानस भवन 11 आर एन टी मार्ग इन्दौर 452001
48	072342	मि० अरोड़ा राजेश कुमार ई-36 प्रथम तल सेक्टर-9, नोएडा 201301	57	073075	मि० मोहनोट मनोज ए-4/सी चित्तौरा अपार्टमेंट्स निकट सतनाम मोटर्स सी- स्कीम जयपुर 302005
49	072512	मि० दत्ता अरूण कुमार 4/282 (1) पार्वती बागला रोड कानपुर 208002			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
58	073379	मि० गुप्ता सुनील कुमार मार्फत श्री शिवशंकर गुप्ता 27 गली बोहरन फिरोजाबाद 283203	66	074103	मि० पोरवाल भरत कुमार एन डी आटोमोबाइल्स चोपासनी रोड, जोधपुर-342003
59	073468	मि० गुप्ता शिरीश कुमार 771 लखनपुर अवध पुरी रोड, कानपुर	67	074268	मि० जैन कैलाश 513-ए तलवाण्डी, कोटा-324005
60	073473	मि.सरीन प्रवीन कुमार 47 रंजन कुंज रुडकी रोड, विपरीत पी ए सी मेरठ-250001	68	074372	मि० शुक्ला अमोद 1-ए हाकिमटोला निकट बसस्टैण्ड, जि० उन्नाव उन्नाव 209801
61	073674	मि० दिनेश कुमार मंत्री डी०-4 जिकनगर कपाशन रोड, चित्तौड़गढ़ -312001	69	074375	मि० विनोद सिंह शाप नम्बर-18 चतुर्थ तल दावा आर एन टी मार्ग इन्दौर-452001
62	073766	मि० महेश्वरी कमलेश कुमार 2 एफ 34 जवाहर नगर श्रीगंगानगर-335001	70	074643	मि० दुबे जय विलास रुम नम्बर-105 प्रिंस काम्प्लेक्स 31/62 हजरत गंज लखनऊ 226001
63	073828	मि० पुरी राहुल 6 केम्ब्रिज टेरस कोलम्बो -7 श्रीलंका	71	074679	मि० गुप्ता सतेन्द्र कुमार मेसर्स के० एल० बनर्जी एण्ड कम्पनी अहियापुर मोड़ स्टेशन रोड, जौनपुर-222001
64	074060	मि० तिवारी संजय कुमार कस्तूरी आंचल सी०-123 डा० आर० के० कालोनी भीलवाडा, 311001	72	74967	मि० खण्डेलवाल नन्द किशोर 101 महर्ष हाउस 7/5 साउथ दुकोगंज इन्दौर 452001
65	074062	मि० सुधीर कुमार मार्फत विजय गोयल एण्ड कम्पनी 24/12 इम्पोरियम ब्लॉक संयज प्लेस आगरा 282002			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
73	075215	मि० भूतरा दिनेश कुमार सी/4 द्वितीय तल अमय चेम्बर्स, जालोरी गेट जोधपुर-342001	80	075638	मि.केशव अवशरन्त ए/43 हाउसिंग कालोनी लोहिया नगर कंकड़बाग पटना 800020
74	075316	मि० विनीत कुमार फ्लैट नं० 404 ब्लॉक-2 शालीमार मालवा-इन्क्लेव विपरीत स्वागत गार्डन ए वी रोड, इन्दौर 452008	81	075719	मि० जैन विनोद जी-246, शास्त्री नगर, जोधपुर 342003
			82	075725	मि० अजमेरा नवीन निकट एन सी सी आफिस सिन्धु नगर भीलवाडा 311001
75	075386	मि० अग्रवाल रवि मार्फत मेसर्स विक्रम कुमार एण्ड कम्पनी जगदीश भवन, इक्विजीवीशन रोड, पटना 800001	83	075734	मि० सब्बरवाल गिरीश 3-जिलाधीश मार्ग राजपुर रोड, देहरादून 248001
76	075404	मि० सोदानी राजेन्द्र सी-65 राजकुटीर काशीपुरी भीलवाडा, 311001	84	075808	डा० गोयल गिरीश ए-3 सरस्वती कालोनी विपरीत केन्द्रीय विद्यालय टोंक रोड, जयपुर 302015
77	075468	मि० त्यागी अनिल कुमार 1-ए हाकिम टोला निकट बस स्टैण्ड जि० उन्नाव उन्नाव 203801	85	075825	मि० सिंह अमृत पाल 16 न्यू सोटी गंज निकट गुरुद्वारा मेरठ 250001
78	075487	मि० खान हारुन पो० बा० नं० 2832 के एम पी जी पीटमार्विक चार्टर्ड, एकाउण्टेंट्स सलालाह 211 सलतनत आफ ओमान	86	075941	मिसेज झनवार उर्मिला एम-95 महेश कालोनी टोंक पाठक जयपुर 302015
			87	076017	मि० अग्रवाल अनूप कुमार 15/1 साइट नं०-2, किदवई नगर कानपुर 208011
79	075596	मि० मालपानी अरुण कुमार 58 उद्योग मार्ग कोटा 324007	88	076082	मि० भूतरा रमेश फाइनेन्स मैनेजर डोडसल प्रा. लि. पो० बा० 8034, यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई यू०ए०ई०

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
89	076189	मि० शुक्ला शेखर 3/सी एच/19 जवाहर नगर जयपुर 302004	97	076488	मि० मोर संजय मदनमोहन पी० ओ० बाक्स नं० 542 दर-इस-सलाम, दर-5-रंगनाम, तनजानिया
90	076197	मि० पारीक मनोज कुमार प्लॉट नं० 30 कल्यान कालोनी टोन्क पाठक जयपुर 302015	98	076506	मि० वैश्य विनय डी-69 एस एम एस रोड बनी पार्क जयपुर
91	076281	मि० अग्रवाल दिनेश कुमार प्रथम तल अग्रवाल कुन्ज महावीर कालोनी तलघनी नाका रायपुर 492001	99	076512	मि० सिसोदिया योगेश कुमार बाजार नं-2 भीलवाड़ा 311001
92	076344	मि० राठी सन्तोष कुमार 51/26 विपरीत टेक्नोलोजी पार्क मानसरोवर जयपुर 302020	100	076566	मि० भण्डारी दीपक सी-237 बसरी सेक्रेण्ड फेस जोधपुर
93	076380	मिस० जयसवाल रीना बी-2 एच आई जी एम पी हाउसिंग बोर्ड, रायपुर नाका दुर्ग 491002	101	076794	मि० गुप्ता सुरेन्द्र कुमार मेसर्स संजय प्रिंटिंग प्रेस स्टेशन रोड गमहरिया सिंहभूम 832108
94	076466	मि० भारद्वाज नलिनी बिमोहन, कैनेन पी टी बी० एन० झा रोड, पोखाना तिल्हा (बिहार) देवघर 814112	102	76930	मि० अग्रवाल मयंक सर्किट हाउस रोड आजाद चौक बालाघाट 481001
95	076472	मि० राय सुपरनो डी- 1/6 पेपर मिल कालोनी निशातगंज, लखनऊ 226006	103	077049	मि० पीयूष रंजन मार्फत गुप्ता नवीन के० एण्ड कम्पनी निकट प्यारे लाल का बाड़ा दाल बाजार ग्वालियर 474002
96	076480	मि० गोयल आशीष एच एस दरदा एण्ड कम्पनी 36-ए सूरज नगर ईस्ट सिविल लाइन्स जयपुर 302006	104	077068	मि० गार्गी संजय कंचन अपार्टमेंट फ्लैट नं० 102 प्रथम तल बी-240 हिल रोड शाहपुरा भोपाल 462018

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
105	077105	मि० गोस्वामी देबासिस नेशनल बैंक आफ फुजैराह पो० बा० 887, फुजैराह दुबई	113	077506	मि० खण्डेलवाल समता 21/22 फीगंज आगरा 282004
106	077143	मि० अग्रवाल रितू डी-193 सेक्टर 49 नोएडा 201301	114	077519	मि० सिंघवी धमेन्द्र विपरीत सुमेर कन्या स्कूल उमैद चौक जोधपुर 342002
107	77185	मि० मल्होत्रा रजित 264-बी गंगा अपार्टमेंट सेक्टर - 29 नोएडा 201301	115	077848	मि० अग्रवाल आशीष बी-30 (117/102) सर्बोदय नगर कानपुर 208005
108	077220	मि० शुक्ला संजीव 128/68-ए, के ब्लॉक किदवई नगर कानपुर 208005	116	077988	मि० रायजादा प्रशान्त डी-103, शास्त्री नगर मेरठ 250004
109	077226	मि० धानुकुमार मनीष मार्फत राजेश सोदानी 301 जीवन अपार्टमेंट 26/2 रेसकोर्स रोड इन्दौर 452001	117	078013	मि० जैन अजय कुमार 30/136 हन्ना गली छिपी टोला आगरा
110	077285	मि० राव पी० श्री निवास जी 4-20, वर्धा रोड टिनप्लेट जमशेदपुर 831003	118	078151	मि० जैन पंकज कुमार वार्ड नं-6, हाट मैदान पी ओ राजखेडा (राजस्थान) धोलपुर 328001
111	077298	मि० कपलिश कमल देव द्वितीय तल, के० के० प्लाजा प्लॉट नं० 1 जोन 2 एम० पी० नगर भोपाल 462011	119	078156	मि० बोम्ब. भरत द्वारकेश मार्केट निकट बस स्टैंड कंकरोली 313324
112	077306	मि० मेहता संजय 1/332 मालवीय नगर जयपुर 302017	120	078205	मि० सेठ गौरव 28/58 फीलखाना कानपुर 208001
			121	078269	मि० अग्रवाल अजय 67 नेहरू नगर दुर्ग 490020

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
122	078309	मि० खालिक अब्दुल जिलानी मंजिल करसाबान के पीछे कबला बीकानेर 334001	130	078948	मि० सक्सेना हरीश मार्फत महाबीर इलेक्ट्रानिक्स विपरीत पुलिस स्टेशन दौसा -303303
123	078355	मि० अग्रवाल मनीष मार्फत एम अरयन एण्ड एसोसियेट मंगल भवन मदर गेट अजमेर 305001	131	079029	मिस० सिंधाई मोनिका 1559/2 नैपियर टाउन जबलपुर 482001
124	078372	मिस० सेठी सोनिया 71/4 बकरालवाला नेशविला रोड, देहरादून 248001	132	079033	मि० मीवल प्रेम शंकर राधा बिहारी भवन विपरीत लक्ष्मी से० स्कूल सकटपुरा कोटा 324008
125	078515	मि० सिंह गोपाल प्रसाद उद्योग विहार बी- 2/94-बी, सेक्टर-71 नोएडा, 201301	133	079127	मि० थरेजा मानव 232 स्कीम नं०-2 लाजपत नगर अलवर 301000
126	078654	मिस० ग्रेवर नीलिमा 288 न्यू गांधी नगर निकट हरि मन्दिर गाजियाबाद 201001	134	502850	मिस० जैन स्वाती 68 प्रताप नगर दादाबरी राजस्थान कोटा
127	078708	मि० जैन जितेन्द्र मार्फत श्री राज कुमार जी जैन प्लॉट नं० 54-बी प्रताप नगर जोधपुर 342004	135	079148	मि० काबरा तरुन मार्फत तरुन इन्टरप्राइजेज 6 खेलण्ड मार्केट राजस्थान, अजमेर 305001
128	078882	मि० भारद्वाज अनुराग 63 सूर्या अपार्टमेन्ट फ्रेजर रोड, पटना-800001	136	079165	मि० विनाया कुमार 3/137 एम आई जी विकास नगर लखनऊ 226022
129	078919	मि० गोयल विजयन्त सी-4, द्वारिकापुरी ग्वालियर 474002	137	079167	मि० मुरारका सन्दीप कुमार अवन्तिका चुरु कोठी कम्पाउन्ड टैगोरो हिल रोड मोराबाडी रौंची 834008

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
138	079330	मि० नन्होत्रा मनिंदर सिंह मार्फत श्री एल० आर० सरस डी-378/6 प्रियदर्शिनी नगर रायपुर 492001	146	079779	मि० बैटरीवाला मुस्ताक अली 57 न्यू सैफी नगर, इन्दौर 452014
139	079418	मि० मेहता अरूण कुमार आरियन्टल बैंक आफ कामस नई दिल्ली	147	079815	मि० सिद्धवानी अनिल जी-6 एम डी काम्प्लेक्स नई सडक ,लश्कर ग्वालियर 474001
140	079501	मि० समरिया अजय कुमार 204 ए ब्लॉक सिल्वर लाइन्स अपार्टमेन्ट 20/2 बी, मनोरमागंज इन्दौर 452001	148	079841	मि० अस्थाना आशीष 104 सिटी होटल काम्प्लेक्स बी० एन० रोड, लाल बाग लखनऊ 226001
141	079689	मि० भारानी मनीष 98-बी वैभव नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर	149	079960	मिस० श्रीवास्तव नीलू राय 503 - बी विंग आई एस एम हाउस ठाकुर विलेज कन्डीवली (ई) मुम्बई 400101
142	079713	मि० त्यागी विकास विलेज एण्ड पोस्ट छपरोला जी० टी० रोड गौतमबुद्ध नगर छपरोला 201101	150	079973	मिस० खाबिया मीनाक्षी मार्फत श्री पी० के० कोचार सी-206 बसुन्धरा काम्प्लेक्स वन्दना नगर निकट तिलक नगर इन्दौर 452001
143	079718	मि० सचदेवा विपुल 254 जीवाजी नगर गोंधी रोड ग्वालियर 474011	151	080145	मि० कालरा विपुल कुमार 314 गंगा शापिंग काम्प्लेक्स ब्लॉक सेक्टेण्ड, सेक्टर-29 नोएडा 201301
144	079742	मि० बंसल सन्दीप बी-7, सेक्टर-VII नोएडा 201301	152	080365	मि० महेश्वरी दीपक कुमार मेग्नेट इम्पेक्सरल एस टी आर मुरेस एन आर 4 सेक्शन -1 बूचारेस्ट आर -78344 रोमानिया
145	079773	मि० सेन गुप्ता शौविक 35/2 जे एल नेहरू रोड जार्ज टाउन, वटलर मार्केट इलाहाबाद 211002			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
153	080957	महेश्वरी राम स्वरूप 135 रतनदीप काम्प्लेक्स प्रथम तल, सिविल लाइन्स बरेली 243001	160	085510	मिस० गुप्ता पूनम 345 विनोबा बस्ती श्रीगंगा नगर 335001
154	082218	मि० लाल रिशी एम जी-152-ए लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद	161	086524	मि० शर्मा राजकुमार सी-2175 सेक्टर-36 नोएडा 201301
155	082707	मि० सेवेस्टियन ई सी सेन्ट जेवियर्स स्कूल गोधी मैदान पटना 800001	162	086911	मिस० शर्मा रजनी डी-4 लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092
156	082720	मि० अशोक कुमार जनरल मैनेजर मवाना सुगर वर्क्स मेरठ मवाना 250402	163	086995	मि० गोविल सचिन्द्र जी-27 आई एच एम टी इंडस्ट्रीयल एरिया बेवार रोड अजमेर 305001
157	085441	मि० गुप्ता राजेश फ्लैट नं० 1 एस एफ अपार्टमेंट डी-842 अमित भारद्वाज मार्ग मालवीय नगर राजस्थान जयपुर 302017	164	087064	मि० माथुर संजय ए 639 सेक्टर 19 नोएडा 201301
158	085494	मि० गुप्ता नरेश कुमार 62 ब्लॉक -एन राजस्थान श्रीगंगा नगर 335001	165	087423	मि० कम्बोज विनय 103 जानकी अपार्टमेंट्स बी-235 शाहपुरा भोपाल 462016
159	085502	मि० छाबड़ा संजीव अपार्टमेंट नं० ए -103 प्लॉट नं० एफ-32 स्टेलर किंग्स कोर्ट सेक्टर -50 नोएडा	166	087460	मि० कंसल सुनील कुमार आवास विकास कालोनी कैलाशपुरी निकट सेंट्रल जेल आगरा
			167	087486	मि० नगरानी हरि एम-37 महावैद्य नगर, फेस प्रथम मथुरा 281001
			168	087687	मि० जैन राजेन्द्रा कुमार 409 क्लासिक काउन, 5/2 ओल्ड पैलेसिया, जी के मेन रोड इन्दौर 452001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
169	088495	मि० मलिक अनिल फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भेल हरिद्वार 249403	177	090910	मि० विनोद कुमार चौधरी वारा जि० बुलन्दशहर सिकन्दराबाद 203205
170	088605	मि० मल्होत्रा राजेश 16 ए / 111 (एच आई जी) बसुन्धरा जि० गाजियाबाद साहिबाबाद 201005	178	091243	मि० अरोरा मन्दीप सिंह मार्फत विकास बंसल 56 ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर 302001
171	89036	मि० अगरिया मिन् मार्फत पायल सिनेमा कासगज यू० पी० एटा 207123	179	091747	मि० बंसल विवेक कुमार मार्फत डी० डी० अग्रवाल गली रेवाड़पुरा हाथरस 204101
172	089425	मि० सोमानी अनुज कुमार सी- 135 प्रथम तल एफ-सेक्रेण्ड रामपरस्ता कालोनी पो० आ० चन्द्र नगर गाजियाबाद 201011	180	092756	मि० जोरदार पीयूष फ्लैट नं० 307 अरावली अपार्टमेन्ट्स कौशाम्बी (यू०पी०) गाजियाबाद 201001
173	089544	मि० शर्मा मुकेश बी-2 सेक्टर 36 नोएडा 201303	181	092839	मि० जैन मीनाक्षी बी-221 सेक्टर-31 नोएडा
174	090480	मि० गुप्ता संजय कुमार ए-45, सेक्टर -21 जलवायु विहार, नोएडा 201301	182	093099	मि० भाटिया रमेश तृतीय एम 37, नेहरू नगर गाजियाबाद 201001
175	090687	मि० गुप्ता विनोद मार्फत चन्द्र मोहन अग्रवाल आशीवाद 7 राज विहार, पो० आ० फ्री चकराता रोड देहरादून 248006	183	093258	मि० राजकुमार एफ-2, 5/363 वैशाली गाजियाबाद 201010
176	090790	मि० राजेन्द्र सिंह ई सी -13 इन्द्रपुरी नई दिल्ली 110012	184	093656	मि० गम्भीर सुरेश ए-302 स्टेलर पार्क प्लॉट नं० सी -58/24, सेक्टर -62, जि० गौतमबुद्ध नगर नोएडा 201301
			185	093689	मि० रोहतगी मरिनल ए 1/बी 174 कुन्द अपार्टमेन्ट शालीमार गार्डन (एम) यू०पी० साहिबाबाद 201005

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
186	093916	मि० अग्रवाल अखिलेश 312 सेक्टर -10ए गुड़गांव	193	096726	मि० महेश्वरी विपुल कुमार पठान चौक मोह नथुरन कासगंज (एटा) (यू०पी०) कासगंज 207123
187	094004	मि० दश मानस कुमार फ्लैट नं० 104, मनोरंजन अपार्टमेंट्स कदरू मेन रोड, कदरू, रौंची 834002	194	097194	मि० वसूजा सतीश कुमार ए-41, सेक्टर-39 नोएडा 201305
188	094627	मि० जैन शालीन आर-9 एम०एल०एस० विश्वविद्यालय कैम्पस उदयपुर 313001	195	097388	मिस० दिव्या मार्फत श्री शरद अग्रवाल विशम्भर शरन ओम प्रकाश एण्ड सन्स स्टेशन रोड, स्टेट बैंक के सामने काशीपुर 244713
189	094722	मि० सिंह उमेश प्रसाद शकुन्तला निवास विकास नगर लातमा रोड, (सिहमोर) रौंची 834003	196	097556	मि० मिश्रा आनन्द मार्फत एच०सी०एल० टेक्नोलोजीज लि० कारपोरेट फाइनेन्स (आडिट) ए-11 सेक्टर -3, नोएडा, -201303
190	095190	मि० दोशी नरेश प्रतीक्षा मार्फत डा० एस० पी० श्रीवास्तव नेस्ट मार्निंग स्टार स्कूल, बैंक कालोनी, गोल का मन्दिर ग्वालियर	197	098069	मि० राकेश कुमार 1800 चौधरी सदन गैनी बाजार कोटला मुबारकपुर विपरीत डी-58, बी०एन०डी०एस०ई०-1 नई दिल्ली 110003
191	095931	मि० भटिया राकेश 94 गोविन्द नगर रेस कोर्स देहरादून 248001	198	098072	मि० अग्रवाल रोहित 205 वृन्दावन कुंज इक्कीविशन रोड, पटना 800001
192	096456	मि० झा शैलेन्द्र कुमार मार्फत प्रो० शत्रुघ्न मिश्रा डिग्धी पोखरी पश्चिम दरभंगा 846004			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
199	098141	मि० शेखर स्मृति 319 पत्रकार परिसर सेक्टर -5 वसुन्धरा (यू०पी०) गाजियाबाद	206	104613	मि० निर्मल कुमार बंसल मार्फत विमल बंसल निकट यामहा शोरूम न्यू कालोनी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 312605
200	098362	मि० गुप्ता मनीष मार्फत श्री डी०सी० अग्रवाल 66 दुकानी स्ट्रीट खुर्जा बुलन्दशहर 203131	207	105001	मि० कंचन दिलीप राय मार्फत एच०सी०एल० टेक्नोलोजीस लि० ए० 10-11, सेक्टर-3, नोएडा 201301
201	098544	मि० गोयनका अनुपम राधेश्याम कोटरीवाला लेन नया बाजार एच०पी०डी० रोड, भागलपुर 812002	208	108031	मि० रूंगटा सोनल रूंगटा भवन गंज पारा दुर्ग 491001
202	099269	मि० श्रीवास्तव मनीष बी०-605 ओ०सी०आर० काम्प्लेक्स विधान सभा मार्ग (यू०पी०) लखनऊ 226001	209	108106	मि० माहेश्वरी चन्द्रमोहन मार्फत सुभाष जी गर्ग गर्ग कम्युनिकेशन विपरीत गर्वमेन्ट कालेज ए०बी० रोड, सेंधवा बारवानी 451686
203	099597	मि० गोयल धर्मेन्द्र कुमार सेला खोला चौघान पाटा निकट पी डब्लू डी आफिस अल्मोडा 263601	210	108974	मि० रहीम सईद नादिर मंजूर सिटी टावर -1, केपीएमजी लेवल शेख जईद रोड, पो० बा० 3800 दुबई यू०ए०ई०
204	099620	मि० राना कपिल ए०सी० -109-बी शालीमार बाग दिल्ली 110088	211	108975	मि० दिनेश चन्द्र समरिया 305 सिटी प्लाजा 564-एम०जी० रोड, रीगल चौराहा इन्दौर 452001
205	099631	मिस० महाजन राखी पो० बा० 74 सफत 13001 सफत कुबैत शौक अस् सफत तीसरी मंजिल अब्दुल्ला मुबारक स्ट्रीट 13001 सफत कबैत			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
212	109627	मि० राजेश अनिरुद्ध पाण्डेय फाइनेन्स मैनेजर फाइनेन्स एण्ड एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट एनटीपीसी- वीएसटीपीपी पो० आ० विन्ध्यवनगर, सीधी 486885	219	211814	मि० ककरपार्थी सम्भाशिवा राव असिस्टेन्ट मैनेजर एकाउन्ट्स द एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि०, कीमोर सीमेन्ट वर्क्स कटनी जि० कीमोर 483880
213	111821	मि० विजय सचदेव सी-84, प्रथम तल जनपथ लेन लालकोठी स्कीम, जयपुर 302015	220	400012	मि० जिन्दल सुमित 2 सी/3 जबाहर नगर कान्के रोड रौंघी 834008
214	111856	मिस० स्मृति प्रभाकर गुर्जर बजाज एलाइन्स जनरल इन्सोरेस क० लि० जी ई प्लाजा एयरपोर्ट रोड पुणे	221	400031	मि० जेजानी अमित कुमार सरस्वती मार्केट, अपर बाजार रौंघी 834001
215	112576	मि० चिरंजीव अजमेरा बी 234 संजय कालोनी, भीलवाड़ा 311001	222	400053	मि० जैन अनिल कुमार 21 बसन्त नगर, भाल रोड, निकट काइस्ट चर्च, मोरार ग्वालियर 474006
216	205725	मि० रीमा बालन रमेश कुमार आयल इण्डिया लि० राजस्थान प्रोजेक्ट 120 ओल्ड रेसीडेन्सी रोड जोधपुर 342001	223	400153	मि० बंसल भारत जयप्रकाश एसोसियेट लि० टेक्सेशन डिपार्टमेन्ट, 64/4, साइट-4, इंडस्ट्रीयल एरिया जि० गाजियाबाद साहिबाबाद 201010
217	211077	मिस० श्रीविद्या वी० सी 2/704 वीपीसीएल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 56, नोएडा 201301	224	400178	मि० सिंह प्रवीण सी-113, सेक्टर-एम मयूर विहार, अलीगंज, लखनऊ 226024
218	211399	मि० जयकृष्णन के० एक्जीक्यूटिव, मेसर्स एचसीएल टेक्नोलोजीस लि० ए 10/11 सेक्टर-3 नोएडा 201301			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
225	400228	मिस० मेहता मेघना 33 मेहताज टिम्बा जगदीश रोड उदयपुर 313001	233	400738	मि० धीरज सरन 8 बी सर्किट हाउस एरिया नार्थ ईस्ट जमशेदपुर 831001
226	400287	मि० अग्रवाल श्रीकिशन 610 विद्याधर का रास्ता विपरीत अग्रसेन पब्लिक स्कूल प्राइमरी सेक्सन जयपुर 302003	234	400742	मि० शर्मा निशान्त डी-402, आर्यमान आवास विपरीत साई बाबा टेम्पल निकट देवाशीस स्कूल रामदेवनगर सेटलाइट अहमदाबाद 380015
227	400354	मि० सरकार शान्तनु 42 जवाहर मार्ग, विपरीत पावर हाउस सनवाड़ 451111	235	400754	मि० वर्मा प्रमोद कुमार ए 2सी अलखराज अपार्टमेन्ट ईस्ट बोरिंग केनाल रोड निकट मा शेड काम्प्लेक्स पटना 800001
228	400431	मि० सुदीप मोहन 9 ए ई -15 सी ब्लॉक शताब्दी विहार, सेक्टर-81 नोएडा 201307	236	400760	मि० जजोदिया नितिन 4 मंगल कालोनी, गायत्री नगर, अजमेर रोड, बियावर 305901
229	400465	मि० रत्ती राहुल म० नं० 235/5 जे० के० कालोनी कानपुर 208010	237	400858	मि० शर्मा गौतम बी-12, बन्धवगढ़ कालोनी रीवा 486008
230	400640	मिस० गुप्ता तृप्ति 153 विश्वकर्मा नगर, अन्नपूर्णा रोड इन्दौर 452009	238	400909	मि० शर्मा सोमेश कुमार 734 सिविल लाइन्स उन्नाव 209801
231	503283	मि० अग्रवाल विकास कै-6 नगर निगम फ्लैट्स पटेल मार्ग गाजियाबाद 201001	239	400916	मिस० गोयल अंशिका 94 नवयुग मार्केट, गाजियाबाद 201001
232	400674	मि० मिश्रा अम्बरीश विपरीत केनाल पीएफएफआईसीई प्रकाश नगर केनाल रोड रायबरेली 229001	240	400926	मि० सिंह विवेक 117/82-ए, शक्ति नगर निकट फैजाबाद रोड लखनऊ 228016

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
241	400956	मि० भाटिया स्वतन्त्र सिंह 679 अर्जुन नगर, सेक्टर -11, हिरन मगरी, उदयपुर 313002	249	401381	मि० अग्रवाल विनोद कुमार सी-67 ए/2 लाल कोठी मार्ग बापू नगर, जयपुर 302015
242	401011	मि० सक्सेना अरूण डी-52, छोमू हाउस सी-स्कीम जयपुर 302001	250	401388	मि० शारदा रोहित कुमार एफ-74, सलासर इन्क्लेव सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
243	401036	मि० जैन राहुल जय तुलसी जय मिश्र निकट टाटर भवन, 6 पाल रोड, सरदारपुरा, जोधपुर 342003	251	401399	मि० खण्डेलवाल विशाल 5 मोती डुंगरी रोड जयपुर 302004
244	401202	मि० अग्रवाल गौरव 235 सेक्टर -5 शास्त्री नगर मेरठ 250004	252	401405	मि० जैन सन्दीप 312 -ए, तलवान्डी कोटा 324005
245	401210	मि० तपारिया रवि सी-32 माडल टाउन विपरीत 17-ई सेक्टर चोपसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर 342008	253	401526	मि० राकेश कुमार मार्फत बीजीबी हास्पिटल ईस्ट अशोक नगर कंकड़ बाग पटना 800020
246	401215	मि० चड्ढा रोहन 34, गुजराती मोहल्ला इलाहाबाद 311003	254	401532	मि० लोहिया रोहित मार्फत आर० के० मार्केट बटरगंज लहरियासराय दरभंगा 846001
247	401274	मि० बंसल नरेश 119 शिव कालोनी हरि मार्ग टोंक रोड, टोंक फाटक जयपुर 302015	255	401595	मि० शर्मा नरेश कुमार मार्फत पारीक एग्रीकल्चर फार्म एन एच-8 वीपीओ परागपुरा, जयपुर 303107
248	401283	मि० असवा निखिल 2/57 असवा भवन चम्पा नगर बियावर 305901	256	401696	मि० वर्मा कृष्ण कुमार एफ-1 गोवर्धन पुरी गालटा गेट जयपुर 302003
			257	401828	मि० तायल शशांक 347, शिवपुरी खुर्जा 203131

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
258	401855	मि० माहेश्वरी दिनेश कुमार 0-15, तीसरी मंजिल अंबर टावर, एस० सी० रोड, जयपुर 302001	266	402279	मि० पन्सारी सुमित मार्फत अमित कुमार रोहित कुमार चौक बाजार, पो०आ० व जिला सिवान सिवान 841226
259	401910	मि० कामरा राजीव 41/767, अजन्ता होटल लेन चैतक मार्ग उदयपुर 313001	267	402291	मि० जैन राजेन्द्र कुमार बी०-247 शास्त्री नगर भीलवाडा 311001
260	401911	मि० प्रेम प्रकाश बागीचीस कम्पाउण्ड नसीराबाद रोड, म०न० 31/551 नागरा अजमेर 305008	268	402519	मिसेज० सारदा श्रद्धा कान्हा निकट नागाराव इस्टेट हीरापुर रोड महोबा बाजार, रायपुर 492001
261	401974	मि० विजय निशिथ सर्राफा बाजार राजस्थान, बारन 325205	269	402591	मि० अनिल कृष्णा 112 प्रीमियर नगर अलीगढ़ 202001
262	402083	मि० जसोरिया आशीष बी०-75, सूर्य नगर गाजियाबाद 201011	270	402604	मि० भोई सुनील कुमार "रमा वाटिका" सी०-1, 2 विनायक विहार विश्वविद्यालय पो० आ० निकट सेन्चुरी कालोनी रायपुर 492010
263	402106	मि० पाण्डेय अतुल कुमार प्रथम तल, डाक बंगला कानपुर रोड, औरैया 206122	271	402632	मि० महावर आशीष प्रथम तल महावीर काम्प्लेक्स रश्मेल चौक, जबलपुर 482001
264	402197	मि० अदितनी दिलीप दीप विला, 7 बंगला, निकट राठी आटो मोबाइल्स बेवार रोड, अजमेर 305001	272	402667	मि० मोहता नवीन जल नीचे भजन चौकी, कबूरतारन का चौक, जालौरी गेट के अन्दर जोधपुर 342001
265	402241	मि० पिपाडा त्रिशला 4-सुभाष चौक इन्दौर 452002			

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
273	402703	मि० मुन्द्र मनीष लक्ष्मी विहार प्लॉट नं० 23-24 राम शिव मन्दिर स्ट्रीट नारायण कालोनी, नयापुरा, लाल सागर जाधपुर	281	403196	मि० मुक्ति लाल मार्फत बाबू लाल अग्रवाल प्लॉट नं० सी०-100-107 विद्याधर नगर जयपुर 302001
274	402755	मि० अग्रवाल मनमोहन 4/663 चित्रकूट अजमेर रोड, जयपुर 302021	282	403391	मि० निवतिया कृष्ण मार्फत संजय दोद्राजका इ०सी०-295 माया इन्क्लेव निकट लाजवंती चौक नई दिल्ली 110046
275	402788	मि० शाह राजेश म० नं० 54 निकट दीप ज्योति स्कूल हिरन मगरी, सेक्टर-14 उदयपुर 313001	283	500581	मि० अरोड़ा नवीन रुम नं० 7 राम दूरिस्ट होटल मेन चौराहा काशीपुर 244713
276	402824	मि० खेतान मुकेश कुमार एस०सी० मुखर्जी रोड, मधूपुर 815353	284	500765	मि० सिंघानिया राहुल मार्फत ओएनजीसी लि० रुम नं० 10 आर ओ बिल्डिंग मकरपुरा रोड, बड़ौदा 390009
277	402831	मि० सिंह मुकेश कुमार क्वार्टर नं० 2116 सेक्टर 12-एफ बोकारो स्टील सिटी 827012	285	501397	मि० जैन राहुल 2301, फर्स्ट क्रॉसिंग एम एस बी का रास्ता जौहरी बाजार जयपुर
278	402846	मि० माहेश्वरी जयकिशन एम० 30 महेश कालोनी टोंक रोड, जयपुर 302015			
279	402959	मि० अग्रवाल कौशल किशोर ए-154, पानी पेच नेहरू नगर जयपुर 302016			
280	402983	मि० सिंघल मनोज कुमार 140/1, शास्त्री नगर मेरठ			

(अशोक हल्दिया)
सचिव

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 1st June 2005

No. N-15/13/24/1/81-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the U.T. Dadra & Nagar Haveli Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 2004 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of U.T. Dadra & Nagar Haveli namely.

"Entire area of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli."

S. THOMAS
Director

No. N-15/13/24/1/81-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the U.T. Daman & Diu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 2004 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of U.T. Daman & Diu Haveli namely.

"Entire area of the Union Territory of U.T. Daman & Diu."

S. THOMAS
Director

No. N-15/15/1/2004-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Meghalaya Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1980 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Meghalaya namely.

"Areas comprising the Revenue Villages of Rangsakona, Anjok, Tamulkuchi, Norbhong, Basanti Bari, Raja Bagan, 13th Mile, 14th Mile and 15th Mile in Byrnihat revenue circle under Byrnihat area."

S. THOMAS
Director

New Delhi, the 16th June 2005

CORRIGENDUM

No. X-11/13/01/2004-P&D—In Resolution No. X-11/13/01/2004-P&D dated 21.03.2005 of the Employees' State Insurance Corporation, published on 26.03.2005 in the Gazette of India Part-III, Section 4 at page 1288, Sr. No. 3 under "Eligibility Conditions" shall stand deleted. Subsequent Sr. Nos. under "Eligibility Conditions" from 4 to 8 shall be re-numbered to read as 3 to 7.

AJAY DUA
Director General, ESIC

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208001, the 10th May 2005

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

3CCA (4) (1) / 2004 – 2005 : - In pursuance of Regulation of 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this institute with effect from 01/10/2004 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following Members :-

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
1.	000865	Mr. RUDRA RABINDRA NATH JAMAL ROAD, PATNA 800001	6.	014801	Mr. GUPTA SHRI PRAKASH 353 MANGAL PANDEY NAGAR (COMMERCIAL), MEERUT 250001
2.	007974	Mr. MEHTA NARPATCHAND 60, AJIT COLONY NR BAL NIKETAN SCHOOL NR KAMLA NEHRU GIRLS COLLEGE, JODHPUR 342001	7.	016649	Mr. RANA GANESH KUMAR 91 MAHARANI GAYATRI DEVI MARKET JAIPUR 302002
3.	008893	Mr. RAI RAMDILAS C – 33/70 – I CHANDU, CHITTUPUR, VARANASI	8.	017322	Mr. JAIN SHIKHARCHAND K WEAR SAFE MALAYSIA (WSM) SDN. BHD. LOT 1, LEBOH HISHAMUDDIN SATU, NORTH KLANG STRAITS INDUSTRIAL AREA, 42000 PORT KLANG, MALAYSIA
4.	009923	Mr. MEHTA BANSHI DHAR AAYOJAN APARTMENT 2 ND FLOOR, S – 7 JYOTINAGAR EXTN LAL KOTHI SCHEME, JAIPUR 302005	9.	017767	Mr. SHARMA TRIVESH KUMAR UNION BANK OF INDIA REGIONAL OFFICE, B – 100, UNIVERSITY MARG, BAPU NAGAR, JAIPUR 302015
5.	010476	Mr. CHOBE FREDERICK GERALD 308, RAJA RAM MOHAN ROY COMPLEX, M G ROAD, INDORE 452001			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
10.	017942	Mr. PURI RAJIV DIESEL INJECTION & ELECTRICALS, 80 FT ROAD, KANPUR 208005	17.	047908	Mr. RAAZ SALEEM AKBAR 59 NEW SAIFEE NAGAR MANIK BAG ROAD, INDORE 452014
11.	033479	Mr. BHANDARI ARVIND ASIA PACK LIMITED 210 – 211, SHUBHAM COMPLEX, 11 – A, KUMBHA MARG, NEW FATEHPURA, UDAIPUR 313004	18.	048244	Mr. JAIN ASHWINI KUMAR 303/303 A BUILDING NO. H2 MANSAROVARIDDHI GARDENTS FILM CITY ROAD, MALAD (E), MUMBAI 400097
12.	036486	Mr. BIRLA KAILASH CHAND MAHESHWRI VASTRA BHANDAR OLD CHARBHUJA TEMPLE, MERTA CITY DISTT, NAGPUR 341001	19.	052294	Mr. THARAD CHANDRA KUMAR H/O SHRI D KUBAWAT 15 – 16 SHIV COLONY, UDAIPUR ROAD, (BEHIND HERO HONDA SHOW ROOM), BANSWARA
13.	026843	Mr. JAIN MUKESH KUMAR S – 50 RAISER PLAZA BABA HARISHCHANDRA MARG, INDIRA BAZAR, JAIPUR 302001	20.	056573	Mr. MANTRI CHANDRA MOHAN B – 159, KENDRIYA VIHAR SECTOR – 52, UP, NOIDA
14.	042997	Mr. SANCHETI SHAILENDRA SARAFON KI POLE SARAFI BAZAR, JODHPUR 342001	21.	056651	Mr. AGRAWAL GOPAL MITTAL BHAWAN GOURISHANKAR MANDIR ROAD, RAIGARH 496001
15.	046331	Mr. PUROHIT RAKESH G – 3/551 GULMOHAR COLONY BHOPAL 462016	22.	057107	Mr. NAZEER INTEKHAB 71 MAYA BAZAAR SOUTH GATE, GORAKHPUR 273001
16.	047897	Mr. BIRLA RAJESH GLOBUS STORES PVT LTD 575/12 M G ROAD, INDORE 452001	23.	057793	Mr. DALMIA RAJESH KUMAR M/S HINDALCO INDUSTRIES LTD RAWMATERIAL DEPT. DIST. SONEBHADRA, RENUKOOT 231217

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
24.	059103	Mr. KHAITAN SUNIL KUMAR C/O SRI M P KHAITAN P O : DANTA RAJASTHAN, SIKAR 332702	32.	071196	Mr. ANAND DWARKA NATH 59 AJEET COLONY, JODHPUR 342001
25.	060879	Mr. DHANANIA VIKASH C/O RELIABLE ROADWINGS H B ROAD, KOKAR, RANCHI	33.	071250	Mr. SETH SANJAY 26/62 GANGA TRADING BUILDING BIRHANA ROAD, KANPUR 208001
26.	062185	Mr. AGARWALLA NARAYAN PRASAD C/O ICICI BANK LIMITED SHASTRINAGAR, DHANBAD 828106	34.	071398	Mr. GARG SANJAY KUMAR F 591 KAMLA NAGAR AGRA 282004
27.	070194	Mr. JHALA ANIL JEET J/46 KRISHNA MARG C SCHEME, JAIPUR 302001	35.	071407	Mr. GARG GOVIND RAM C/O SHRI ANANT RAM GARG RAILWAY STATION ROAD, BEAWAR 305901
28.	070559	Mr. BASANT RAJ BHANSALI COMTEXTILE (HK) LTD GRAHA IRAMA SUTIE, 7D/E JL HR RASUNA SAID, BLOCK X - I KAV 1 - 2, JAKARTA 12950 JAKARTA	36.	071417	Mr. THAKURIA DEEPAK 6, YESHWANT NIWAS ROAD INDORE 452003
29.	070595	Mr. GUPTA OM PRAKASH 30 SIWAR COMPOUND AMER ROAD, JAIPUR 302002	37.	071445	Mr. AGARWAL RAJEEV ROYAL GARDEN ESTATE FLAT NO. BH - 60, E - 12 SECTOR - 61, NOIDA 201301
30.	070940	Mr. BHANSALI ARVIND SURAJ 38 A BAKHATSAGAR NEHRU PARK SARDARPURA, JODHPUR 342003	38.	071458	Mr. ATUL PRAKASH C/O LATE SHRI K C AGRAWAL NAWAB MOHALLA, KASGANJ 207123
31.	070942	Mr. PANAGARIA GYAN MAL 154, VAKIL COLONY BHILWARA 311001	39.	071504	Mr. RATHI KEDAR MAL C/O F - 19, BASANT VIHAR, BHILWARA 311001
			40.	071575	Mr. PAWAN KUMAR SWARUP 296/8, SANJAY KUTIR ASIF GANJ, PURANI KOTWALI, AZAMGARH 276001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
41.	071649	Mr. MEHTA ARVIND 36 -A SURAJ NAGAR EAST CIVIL LINES, JAIPUR 302001	50.	072668	Mr. SOLANKI DHARMENDRA PLOT NO. 55, BLOCK "A" (A - 55) MODEL TOWN, NEAR P & T COLONY, JAGATPURA ROAD, MALVIYA NAGAR, JAIPUR 302017
42.	071717	Mr. BAJPAI PRADEEP KUMAR E - 5, 104 ARERA COLONY BHOPAL 462001	51.	072724	Mr. BHATIA DEVKI NANDAN 11/752 VASUNDHARA YOJNA (U.P.), GAZIABAD 201010
43.	071733	Mr. BHARGAVA RAJ KUMAR 47 ANAND BHAWAN, SURYA PATH, NEW COLONY, JAIPUR 302001	52.	072748	Mr. MATHANI GOPICHAND 1 ST FLOOR MAHAVIR MARKET, M G ROAD RAIPUR 492001
44.	071917	Mr. GODIKA SANJAY D - 1 GANESH MARG BAPU NAGAR, JAIPUR 302015	53.	072881	Mr. AJMERA SURENDRA 3 H BLOCK 20 LAGUNA CITY LAM TIA, KOWLOON HONGKONG
45.	072025	Mr. VERMA DINESH KUMAR SATYA BHAWAN KHAILAND MARKET, AJMER	54.	072929	Mr. SANADHYA DINESH CHANDRA NEW ROAD NATHDWARA 313301
46.	072029	Mr. GUPTA ANIL KUMAR 75/6 HALSEY ROAD KANPUR 208001	55.	072948	Mr. JAIN AJAY KUMAR AJAY BHAWAN GANESH RAM NAGAR, RAIPUR 492001
47.	072105	Mr. MANGHNANI ASHOK KUMAR 76 SINDHI COLONY BANI PARK, JAIPUR 302016	56.	072988	Mr. KHANDELWAL CHANDRA PRAKASH 112 - 114 MANAS BHAWAN 11 R N T MARG INDORE 452001
48.	072342	Mr. ARORA RAJESH KUMAR E - 36 FIRST FLOOR SECTOR 9, NOIDA 201301	57.	073075	Mr. MOHNOT MANOJ A - 4/C CHITTORA APARTMENTS NEAR SATNAM MOTORS, C SCHEME, JAIPUR 302005
49.	072512	Mr. DUTTA ARUN KUMAR 4/282 (1) PARBATI BAGLA ROAD, KANPUR 208002			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
58.	073379	Mr. GUPTA SUNIL KUMAR C/O SH SHIV SHANKAR GUPTA 27 GALI BOHARAN, FIROZABAD 283203	66.	074103	Mr. PORWAL BHARAT KUMAR N D AUTOMOBILES CHOPASNI ROAD JODHPUR 342003
59.	073468	Mr. GUPTA SHIRISH KUMAR 771 LAKHANPUR AVADHPURI ROAD, KANPUR	67.	074268	Mr. JAIN KAILASH 513 A TALWANDI KOTA 324005
60.	073473	Mr. SARIN PRAVEEN KUMAR 47, RANJAN KUNJ ROORKEE ROAD, OPP. P A C MEERUT 250001	68.	074372	Mr. SHUKLA AMOD 1 – A HAKIM TOLA NEAR BUS STAND, DIST UNNAO, UNNAO 209901
61.	073674	Mr. DINESH KUMAR MANTRI D – 4, ZINC NAGAR KAPASAN ROAD CHITTORGARH 312001	69.	074375	Mr. VINOD SINGH SHOP NO. 18, 4 TH FLOOR. DAWA, R N T MARG, INDORE 452001
62.	073766	Mr. MAHESHWARI KAMLESH KUMAR 2 F 34, JAWAHAR NAGAR SRIGANGANAGAR 335001	70.	074643	Mr. DUBEY JAY VILAS ROOM NO. 105 PRINCE COMPLEX, 31/62 HAZRATGANJ, LUCKNOW 226001
63.	073828	Mr. PURI RAHUL 6 CAMBRIDGE TERRACE COLOMBO 7, SRI LANKA	71.	074679	Mr. GUPTA SATYENDRA KUMAR M/S K L BANERJEE & CO AHIYAPUR MORE, STATION ROAD, JAUNPUR 222001
64.	074060	Mr. TIWARI SANJAY KUMAR KASTURI ANCHAL C – 123 DR R K COLONY, BHILWARA 311001	72.	074967	Mr. KHANDELWAL NAND KISHORE 101 MAHAHARSH HOUSE 7/5 SOUTH TUKOGANJ, INDORE 452001
65.	074062	Mr. SUDHIR KUMAR C/O VIJAY GOYAL & CO 24/12 EMPORIUM BLOCK, SANJAY PLACE, AGRA 282002			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
73.	075215	Mr. BHUTRA DINSH KUMAR C/4 IIND FLOOR ABHAEY CHAMBERS, JALORI GATE, JODHPUR 342001	80.	075638	Mr. KESHAVA AVSHRANT A/43 HOUSING COLONY LOHIYA NAGAR (KANKARBAGH), PATNA 800020
74.	075316	Mr. VINEET KUMAR FLAT NO. 404, BLOCK – 2, SHALIMAR MALWA ENCLAVE, OPP. SWAGAT GARDEN, A. B. ROAD, INDORE 452008	81.	075719	Mr. JAIN VINOD G – 246 SHASTRI NAGAR JODHPUR 342003
75.	075386	Mr. AGRAWAL RAVI C/O M/S VIKRAM KUMAR & CO., JAGDISH BHAWAN, EXHIBITION ROAD, PATNA 800001	82.	075725	Mr. AJMERA NAVEEN NEAR NCC OFFICE SINDHU NAGAR, BHILWARA 311001
76.	075404	Mr. SODANI RAJENDRA C – 65 RAJKUTIR, KASHIPURI, BHILWARA 311001	83.	075734	Mr. SABHARWAL GIRISH 3, ZILADISH MARG, RAJPUR ROAD, DEHRADUN 248001
77.	075468	Mr. TYAGI ANIL KUMAR 1 – A HAKIM TOLA NEAR BUS STAND DIST UNNAO UNNAO 209801	84.	075808	Dr. GOYAL GIRISH A – 3 SARASWATI COLONY OPP CENTRAL SCHOOL, TONK ROAD, JAIPUR 302015
78.	075487	Mr. KHAN HAROON PO BOX NO. 2832 KMPG PEAT MARWICK, CHARTERED ACCOUNTANTS, SALALAH 211, SULTANATE OF OMAN	85.	075825	Mr. SINGH AMRIT PAL 16 – NEW SOTI GANJ NEAR GURUDWARA, MEERUT 250001
79.	075596	Mr. MALPANI ARUN KUMAR 58 UDYOG MARG KOTA 324007	86.	075941	Mrs. JHANWAR URMILA M – 95 MAHESH COLONY TONK PATHAK, JAIPUR 302015
			87.	076017	Mr. AGARWAL ANOOP KUMAR 15/1 SITE NO 2 KIDWAI NAGAR, KANPUR 208011
			88.	076082	Mr. BHOOTRA RAMESH FINANCE MANAGER DODSAL PTE LTD., P. O. BOX 8034., UNITED ARAB EMIRATES, DUBAI, UAE

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
89.	076189	Mr. SHUKLA SHEKHAR 3/CH/19 JAWAHAR NAGAR, JAIPUR 302004	97.	076488	Mr. MOR SANJAY MADANMOHAN P O BOX NO. 542 DAR – ES – SALAAM, DAR – E – SALAAM, TANZANIA
90.	076197	Mr. PAREEK MANOJ KUMAR PLOT NO 30 KALYAN COLONY, TONK PHATAK JAIPUR 302015	98.	076506	Mr. VAISH VINAY D – 69 SMS ROAD BANI PARK, JAIPUR
91.	076281	MR. AGRAWAL DINESH KUMAR 1 ST FLOOR AGRAWAL KUNJ MAHAVIR COLONY, TALGHANI NAKA RAIPUR 492001	99.	076512	Mr. SISODIA YOGESH KUMAR BAZAR NO. 2 BHILWARA 311001
92.	076344	Mr. RATHI SANTOSH KUMAR 51/26 OPP TECHNOLOGY PARK, MANSAROVAR, JAIPUR 302020	100.	076566	Mr. BHANDARI DEEPAK C – 237 BASRI IIND PHASE JODHPUR
93.	076380	Ms. JAISWAL REENA B – 2 HIG MP HOUSING BOARD, RAIPUR NAKA, DURG 491002	101.	076794	Mr. GUPTA SURENDRA KUMAR M/S SANJAY PRINTING PRESS STATION ROAD, GAMHARIA, SINGHBHUM 832108
94.	076466	Mr. BHARDWAJ NALINI BIMOHAN 'KANAN' PT B N JHA ROAD POKHANA TILHA, (BIHAR), DEOGHAR 814112	102.	076930	Mr. AGRAWAL MAYANK CIRCUIT HOUSE ROAD AZAD CHOWK, BALAGHAT 481001
95.	076472	Mr. RAY SUPARNO D – 1/6 PAPER MILL COLONY NISHAT GANJ, LUCKNOW 226006	103.	077049	Mr. PIYUSH RANJAN C/O GUPTA NAVIN K & CO NEAR PYARE LAL KA BADA, DAL BAZAR, GWALIOR 474002
96.	076480	Mr. GOYAL ASHISH H S DARDA & CO 36 – A SURAJ NAGAR EAST CIVIL LINES, JAIPUR 302006	104.	077068	Mr. GARGE SANJAY KANCHAN APARTMENT, FLAT NO. 102, 1 ST FLOOR, B – 240 HILL ROAD, SHAHPURA, BHOPAL 462016

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
105.	077105	Mr. GOSWAMI DEBASIS NATIONAL BANK OF FUJAIRAH P O BOX 887, FUJAIRAH, DUBAI	113.	077506	Ms. KHANDELWAL SAMTA 21/22 FREE GANJ AGRA 282004
106.	077143	Mrs. AGARWAL RITU D – 193 SECTOR 49 NOIDA 201301	114.	077519	Mr. SINGHVI DHARMENDRA OPP. SUMER KANIYA SCHOOL UMED CHOWK, JODHPUR 342002
107.	077185	Mr. MALHOTRA RAJIT 264 – B, GANGA APARTMENTS SECTOR – 29, NOIDA 201301	115.	077848	Mr. AGARWAL ASHISH B – 30 (117/102) SARVODAYA NAGAR, KANPUR 208005
108.	077220	Mr. SHUKLA SANJEEV 128/68 – A, K BLOCK KIDWAI NAGAR, KANPUR 208011	116.	077988	Mr. RAIZADA PRASHANT D – 103 SHASTRI NAGAR MEERUT 250004
109.	077228	Mr. DHANUKA MANOJ C/O RAJESH SODANI 301 JEEVAN APARTMENT, 26/2 RACE COURSE ROAD, INDORE 452001	117.	078013	Mr. JAIN AJAY KUMAR 30/136 HANNA GALI CHHIPI TOLA, AGRA
110.	077285	Mr. RAO P SRINIVAS G4 – 20, WARDHA ROAD, TINPLATE, JAMSHEDPUR 831003	118.	078151	Mr. JAIN PANKAJ KUMAR WARD NO 6 HAAT MAIDAN, P O RAJAKHEDA, (RAJASTHAN), DHOLPUR 328001
111.	077298	Mr. KAPLISH KAMAL DEV IIND FLOOR, K. K. PLAZA, PLOT NO. 1 ZONE II, M. P. NAGAR, BHOPAL 462011	119.	078156	Mr. BOMB BHARAT DWARAKESH MARKET NEAR BUS STAND, KANKROLI 313324
112.	077306	Mr. MEHTA SANJAY 1/332 MALVIYA NAGAR JAIPUR 302017	120.	078205	Mr. SETH GAURAV 28/58 PHEEL KHANA KANPUR 208001
			121.	078269	Mr. AGRAWAL AJAY 67 NEHRU NAGAR DURG 490020

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
122.	078309	Mr. KHALIK ABDUL ZILLANI MANZIL BEHIND KASSABAN, KERBALA, BIKANER 334001	130.	078948	Mr. SAXENA HARISH C/O MAHAVEER ELECTRONICS OPP POLICE STATION, DAUSA 303303
123.	078355	Mr. AGARWAL MANISH C/O M ARYAN & ASSOCIATES MANGAL BHAWAN, MADAR GATE, AJMER 305001	131.	079029	Ms. SINGHAI MONIKA 1559/2 NAPIER TOWN JABALPUR 482001
124.	078372	Ms. SETHI SONIA 71/4 BAKRALWALA NESHVILLA ROAD, DEHRADUN 248001	132.	079033	Mr. MEI WAL PREM SHANKER RADHA BIHARI BHAWAN OPP LAXMI SEC. SCHOOL, SAKATPURA, KOTA 324008
125.	078515	Mr. SINGH GOPAL PRASAD UDYOG VIHAR B – 2/94 – B, SECTOR – 71, NOIDA 201301	133.	079127	Mr. THAREJA MANAV 232 SCHEME NO 2 LAJPAT NAGAR, ALWAR 301000
126.	078654	Ms. GROVER NEELIMA 288 NEW GANDHI NAGAR NEAR HARI MANDIR GHAZIABAD 201001	134.	502850	Ms. JAIN SWATI 68 PRATAP NAGAR DADABARI, RAJASTHAN, KOTA
127.	078708	Mr. JAIN JITENDRA C/O SHRI RAJ KUMAR JI JAIN PLOT NO. 54 – B, PRATAP NAGAR JODHPUR 342004	135.	079148	Mr. KABRA TARUN C/O TARUN ENTERPRISES 6 KHAILAND MARKET, (RAJASTHAN), AJMER 305001
128.	078882	Mr. BHARADWAJ ANURAG 63 SURYA APARTMENT FREASER ROAD, PATNA 800001	136.	079165	Mr. VINAYA KUMAR 3/137 MIG, VIKAS NAGAR LUCKNOW 226022
129.	078919	Mr. GOYAL VIJAYANT C – 4, DWARKA PURI GWALIOR 474002	137.	079167	Mr. MURARKA SANDEEP KUMAR AVANTIKA CHURU KOTHI COMPOUND, TAGORO HILL ROAD, MORABADI, RANCHI 834008

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
138.	079330	Mr. NANHOTRA MANINDER SINGH C/O SHRI L R SARAS D – 376/6, PRIYADARSHINI NAGAR, RAIPUR 492001	146.	079779	Mr. BATTERYWALA MUSTAK ALI 57 NEW SAIFEE NAGAR INDORE 452014
139.	079418	Mr. MEHTA ARUN KUMAR ORIENTAL BANK OF COMMERCE NEW DELHI	147.	079815	Mr. SIDHWANI ANIL G – 6 M D COMPLEX NAI SAKAR, LASHKAR, GWALIOR 474001
140.	079501	Mr. SAMRIA AJAY KUMAR 204 A BLOCK SILVER LINES APARTMENT, 20/2 B MANORAMA GANJ, INDORE 452001	148.	079841	Mr. ASTHANA ASHISH 104, CITI HOTEL COMPLEX B. N. ROAD, LAL BAGH, LUCKNOW 226001
141.	079689	Mr. BHARANI MANISH 98 – B, VAIBHAV NAGAR, KANADIA ROAD, INDORE	149.	079960	Ms. SHRIVASTAVA NEELU RAI 503 – B WING ISM HOUSE, THAKUR VILLAGE, KANDIVLI (E), MUMBAI 400101
142.	079713	Mr. TYAGI VIKAS VILL. & POST – CHHAPRAULA, G T ROAD, GAUTAMBUDH NAGAR, CHHAPRAULA 201101	150.	079973	Ms. KHABIYA MEENAKSHI C/O SHRI P K KOCHAR C – 206 VASUNDRA COMPLEX, VANDANA NAGAR, NEAR TILAK NAGAR, INDORE 452001
143.	079718	Mr. SACHDEVA VIPUL 254 JIWAJI NAGAR GANDHI ROAD, GWALIOR 474011	151.	080145	Mr. KALRA VIPUL KUMAR 314 GANGA SHOPPING COMPLEX, BLOCK II SECTOR 29, NOIDA 201301
144.	079742	Mr. BANSAL SANDEEP B – 7, SECTOR VII, NOIDA 201301	152.	080365	Mr. MAHESHWARI DEEPAK KUMAR MAGNIET IMPEXSRL STR MURES NR 4 SEC 1, BUCHAREST R – 78344 ROMANIA
145.	079773	Mr. SENGUPTA SHAUVIK 35/2 J L NEHRU ROAD GEORGE TOWN, BUTLER MARKET, ALLAHABAD 211002			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
153.	080957	Mr. MAHESHWARY RAM SWAROOP 135 RATANDEEP COMPLEX 1 ST FLOOR, CIVIL LINES, BAREILLY 243001	160.	085510	Ms. GUPTA POONAM 345 VINOBA BASTI SRIGANGA NAGAR 335001
154.	082218	Mr. LAL RISHI M G – 152 – A LAJPAT NAGAR SAHIBABAD, GHAZIABAD	161.	086524	Mr. SHARMA RAJ KUMAR C – 2175, SECTOR – 36 NOIDA 201301
155.	082707	Mr. SEBASTIAN E C ST XAVIER'S SCHOOL GANDHI MAIDAN, PATNA 800001	162.	086911	Ms. SHARMA RAJNI D – 4 LAXMI NAGAR DELHI 110092
156.	082720	Mr. ASHOK KUMAR GENERAL MANAGER MAWANA SUGER WORKS, MEERUT, MAWANA 250402	163.	086995	Mr. GOVIL SHACHINDRA G – 27 I HMT INDUSTRIAL AREA BEAWAR ROAD AJMER 305001
157.	085441	Mr. GUPTA RAJESH FLAT NO. 1, S F APARTMENTS D – 842, AMIT BHARDWAJ MARG MALVIYA NAGAR, RAJASTHAN, JAIPUR 302017	164.	087064	Mr. MATHUR SANJAY A 639 SECTOR 19 NOIDA 201301
158.	085494	Mr. GUPTA NARESH KUMAR 62, BLOCK – N RAJASTHAN, SRIGANGA NAGAR 335001	165.	087423	Mr. KAMBOJ VINAY 103 JANKI APPARTMENTS B – 235 SHAHPURA, BHOPAL 462016
159.	085502	Mr. CHHABRA SANJIV APARTMENT NO. A – 103, PLOT NO F – 32, STELLAR KINGS COURT, SECTOR – 50, NOIDA	166.	087460	Mr. KANSAL SUNIL KUMAR AWAS VIKAS COLONY KAILASH PURI, NEAR CENTRAL JAIL, AGRA
			167.	087486	Mr. NAGRANI HARI M – 37, MAHAVEDHYA NAGAR PHASE I, MATHURA 281001
			168.	087687	Mr. JAIN RAJENDRA KUMAR 409 CLASSIC CROWN 5/2 OLD PALASIA, G. K. MAIN ROAD, INDORE 452001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
169.	088495	Mr. MALIK ANIL FINANCE DEPTT. MAIN ADMN BLDG, BHEL, HARDWAR 249403	177.	090910	Mr. VINOD KUMAR CHOUDHRI WARA, DIST BULANDSHAHR, SIKANDRABAD 203205
170.	088605	Mr. MALHOTRA RAJESH 16A/111 (H I G) VASUNDHARA DISTT GHAZIABAD, SAHIBABAD 201005	178.	091243	Mr. ARORA MANDEEP SINGH C/O VIKAS BANSAL 56 TRANSPORT NAGAR, JAIPUR 302001
171.	089036	Mr. AGARAIYA MINOO C/O PAYAL CINEMA, KASGANJ, UTTAR PRADESH, ETAH 207123	179.	091747	Mr. BANSAL VIVEK KUMAR C/O D D AGRAWAL GALI REWAR PURA, HATHRAS 204101
172.	089425	Mr. SOMANI ANUJ KUAMR C – 135, FIRST FLOOR F – II, RAMPRASTHA COLONY, P O CHANDER NAGAR GHAZIABAD 201011	180.	092756	Mr. JOARDAR PEEYUSH FLAT NO 307 ARAVALI APTS, KAUSHAMBI,(U.P.), GHAZIABAD 201001
173.	089544	Mr. SHARMA MUKESH B – 2, SECTOR 36, NOIDA 201303	181.	092839	Ms. JAIN MINAKSHI B – 221, SECTOR – 31 NOIDA
174.	090480	Mr. GUPTA SANJAY KUMAR A – 45 SECTOR 21 JALVAYU VIHAR, NOIDA 201301	182.	093099	Mr. BHATIA RAMESH III M 37 NEHRU NAGAR GHAZIABAD 201001
175.	090687	Mr. GUPTA VINOD C/O CHANDRA MOHAN AGARWAL ASHIRWAD 7 RAJ VIHAR, PO FRI CHAKRATA ROAD, DEHRADUN 248006	183.	093258	Mr. RAJ KUMAR F – 2, 5/763 VAISHALI GHAZIABAD 201010
176.	090790	Mr. RAJENDRA SINGH EC – 13 INDERPURI NEW DELHI 110012	184.	093656	Mr. GAMBHIR SURESH A – 302 STELLAR PARK, PLOT NO. C – 58/24, SECTOR – 62 DIST. GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA 201301
			185.	093689	Mr. ROHATGI MRINAL AI/B 174 KUNDRA APARTMENTS SHALIMAR GARDEN (M), U P, SAHIBABAD 201005

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
186.	093916	Mr. AGRAWAL AKHILESH 312 SECTOR – 10A GURGAON	193.	096726	Mr. MAHESHWARI VIPUL KUMAR PATHAN CHOWK MOH NATHURAN, KASGANJ (ETAH), (U.P.), KASGANJ 207123
187.	094004	Mr. DASH MANAS KUMAR FLAT NO 104, MANORANJAN APARTMENTS, KADRU MAIN ROAD, KUDRU, RANCHI 834002	194.	097194	Mr. VASOOJA SATISH KUMAR A – 41, SECTOR – 39, NOIDA 201305
188.	094627	Mr. JAIN SHALEEN R – 9, MLS UNIVERSITY CAMPUS UDAIPUR 313001	195.	097388	Ms. DIVYA C/O SHRI SHARAD AGARWAL BISHAMBHER SARAN OM PRAKASH & SONS STATION ROAD, OPP STATE BANK OF INDIA KASHIPUR 244712
189.	094722	Mr. SINGH UMESH PRASAD SHAKUNTALEYA NIWAS VIKAS NAGAR, LATMA ROAD, (SINGHMORE), RANCHI 834003	196.	097556	Mr. MISHRA ANAND C/O HCL TECHNOLOGIES LTD CORPORATE FINANCE (AUDIT), A – 11, SECTOR – 3, NOIDA 201303
190.	095190	Mr. DOSHI NARESH PRATIKSHA C/O DR. S P SRIVASTAVA, NEXT MORNING STAR SCHOOL, BANK COLONY, GOLE KA MANDIR, GWALIOR	197.	098069	Mr. RAKESH KUMAR 1800 CHAUDHARY SADAN GIANI BAZAR KOTLA MUBARAKPUR, OPP. D – 58 – B N D S E – 1 NEW DELHI 110003
191.	095931	Mr. BHATIA RAKESH 94 GOVIND NAGAR RACE COURSE, DEHRADUN 248001	198.	098072	Mr. AGARWAL ROHIT 205 BRINDAWAN KUNJ, EXHIBITION ROAD, PATNA 800001
192.	096456	Mr. JHA SHAILENDRA KUMAR C/O PROF. SHATRUGHAN MISHRA DIGGHI POKHARI WEST, DARBHANGA 846004			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
199.	098141	Ms. SHEKHAR SMRITI 319, PATRAKAR PARISAR SECTOR - 5, VASUNDARA, U.P., GHAZIABAD	206.	104613	Mr. NIRMAL KUMAR BANSAL C/O VIMAL BANSAL NEAR YAMAHA SHOWROOM, NEW COLONY, PRATAPGARH, CHITTORGARH 312605
200.	098362	Mr. GUPTA MANISH C/O SHRI D C AGARWAL 66 DUKANI STREET, KHURJA, BULANDSHAHR 203131	207.	105001	Mr. KANCHAN DILIP ROY C/O HCL TECHNOLOGIES LTD A 10 - 11, SECTOR 3, NOIDA 201301
201.	098544	Mr. GOENKA ANUPAM RADHEYSHYAM KOTRIWALA LANE NAYA BAZAR, HPD ROAD, BHAGALPUR 812002	208.	108031	Mr. RUNGTA SONAL RUNGTA BHAWAN GANJ PARA, DURG 491001
202.	099269	Mr. SRIVASTAVA MANISH B - 605, OCR COMPLEX, VIDHAN SABHA MARG, U.P., LUCKNOW 226001	209.	108106	Mr. MAHESHWARI CHANDRAMOHAN C/O SUBHASH JI GARG GARG COMMUNICATION OPP. GOVERNMENT COLLEGE, A B ROAD SENDHWA, BARWANI 451666
203.	099597	Mr. GOYAL DHARMENDRA KUMAR SELA KHOLA, CHAUGHAN PATA, NEAR P W D OFFICE, ALMORA 263601	210.	108974	Mr. RAHIM SAYED NADIR MANZOOR CITY TOWER 1 KPMG LEVEL SHEIKH ZAYED ROAD, P O BOX 3800, DUBAI UAE
204.	099620	Mr. RANA KAPIL AC II 109 - B, SHALIMAR BAGH, DELHI 110088	211.	108975	Mr. DINESH CHANDRA SAMRIYA 305 - CITY PLAZA 564 M. G. ROAD, REGAL CHOURAHA, INDORE 452001
205.	099631	Ms. MAHAJAN RAKHI P O BOX 74 SAFAT 13001 SAFAT KUWAIT SOUK AS SAFAT 3 RD FLOOR, ABDULLAH MUBARAK STREET, 13001, SAFAT - KUWAIT KUWAIT			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
212.	109627	Mr. RAJESH ANIRUDDHA PANDEY FINANCE MANAGER FINANCE AND ACCOUNTS DEPT, NTPC – VSTPP, P O VINDHYANAGAR, SIDHI 486885	219.	211814	Mr. KAKARPARTHY SAMBASIVA RAO ASSISTANT MANAGER ACCOUNTS- THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LIMITED, KYMORE CEMENT WORKS, KATNI DISTRICT, KYMORE 483880
213.	111821	Mr. VIJAY SACHDEV C – 84, 1 ST FLOOR, JANPATH LANE, LAL KOTHI SCHEME, JAIPUR 302015	220.	400012	Mr. JINDAL SUMEET 2C/3 JAWAHAR NAGAR KANKE ROAD, RANCHI 834008
214.	111856	Ms. SMRITI PRABHAKAR GURJAR BAJAJ ALLIANCE GENERAL INSURANCE CO LTD GE PLAZA AIRPORT ROAD, PUNE	221.	400031	Mr. JEJANI AMIT KUMAR SARASWATI MARKET UPPER BAZAR, RANCHI 834001
215.	112576	Mr. CHEERANJEEV AJMERA B 234 SANJAY COLONY BHILWARA 311001	222.	400053	Mr. JAIN ANIL KUMAR 21 BASANT NAGAR MALL ROAD, NEAR CHRIST CHURCH, MORAR, GWALIOR 474006
216.	205725	Mr. REMA BALAN RAMESH KUMAR OIL INDIA LTD RAJASTHAN PROJECT, 120 OLD RESIDENCY ROAD, JODHPUR 342001	223.	400153	Mr. BANSAL BHARAT JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD TAXATION DEPARTMENT, 64/4 SITE IV, INDUSTRIAL AREA, DISTT GHAZIABAD, SAHIBABAD 201010
217.	211077	Ms. SRIVIDYA V C2/704 B P C L HOUSING COMPLEX SECTOR 56, NOIDA 201301	224.	400178	Mr. SINGH PRAVEEN C – 113, SECTOR – M MAYUR VIHAR, ALIGANJ, LUCKNOW 226024
218.	211399	Mr. JAYAKRISHNAN K EXECUTIVE M/S H C L TECHNOLOGIES LIMITED A 10/11 SECTOR III NOIDA 201301			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
241.	400956	Mr. BHATIA SWATANTRA SINGH 679 ARJUN NAGAR SECTOR – 11, HIRAN MAGRI, UDAIPUR 313002	249.	401381	Mr. AGARWAL VINOD KUMAR C – 67 A/2 LAL KOTHI MARG BAPU NAGAR, JAIPUR 302015
	401011	Mr. SAXENA ARUN D – 52, CHOMU HOUSE C – SCHEME, JAIPUR 302001	250.	401388	Mr. SARDA ROHIT KUMAR F – 74, SALASAR ENCLAVE SUBHASH MARG, 'C' SCHEME, JAIPUR
243.	401035	Mr. JAIN RAHUL JAI TULSI JAI BHIKSHU NAER TATER BHAWAN, 6 TH PAL ROAD SARDARPURA, JODHPUR 342003	251.	401399	Mr. KHANDELWAL VISHAL 5 MOTI DOONGRI ROAD JAIPUR 302004
244.	401202	Mr. AGARWAL GAURAV 235 SECTOR 5 SHASTRI NAGAR MEERUT 250004	252.	401405	Mr. JAIN SANDEEP 312 – A TALWANDI KOTA 324 005
245.	401210	Mr. TAPARIA RAVI C – 32 MODEL TOWN OPP. 17 – E SECTOR, CHOPASANI HOUSING BOARD, JODHPUR 342008	253.	401526	Mr. RAKESH KUMAR C/O BGB HOSPITAL EAST ASHOK NAGAR, KANKER BAGH, PATNA 800020
246.	401215	Mr. CHADDHA ROHAN 34, GUJRATI MOHALLA ALLAHABAD 311003	254.	401532	Mr. LOHIA ROHIT C/O R K MARKET BATERGANJ, LAHERIASARAI, DARBHANGA 846001
247.	401274	Mr. BANSAL NARESH 119 SHIV COLONY HARI MARG TONK ROAD TONK PHATAK, JAIPUR 302015	255.	401595	Mr. SHARMA NARESH KUMAR C/O PAREEK AGRICULTURE FARM N H – 8, V. P. O. PARAGPURA, JAIPUR 303107
248.	401293	Mr. ASAWA NIKHIL 2/57 ASAWA BHAWAN CHAMPA NAGAR, BEAWAR 305901	256.	401696	Mr. VERMA KRISHAN KUMAR F – 1 GOVERDHAN PURI GALTA GATE, JAIPUR 302003
			257.	401828	Mr. TAYAL SHASHANK 347, SHIVPURI KHURJA 203131

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
258.	401855	Mr. MAHESHWARI DINESH KUMAR 0 – 15 3 RD FLOOR AMBAR TOWER S C ROAD, JAIPUR 302001	266.	402279	Ms. PANSARI SUMIT C/O AMIT KUMAR ROHIT KUMAR CHOWK BAZAR, PO & DIST SIWAN, SIWAN 841226
259.	401910	Mr. KAMRA RAJIV 41/767 AJANTA HOTEL LANE CHETAK MARG, UDAIPUR 313001	267.	402291	Mr. JAIN RAJENDRA KUMAR B – 247 SHASTRINAGAR BHILWARA 311001
260.	401911	Mr. PREM PRAKASH BAGICHI'S COMPOUND, NASIRABAD ROAD H. NO 31/551 NAGRA AJMER 305008	268.	402519	Ms. SARDA SHRADDHA "KANHA" NEAR NAGARAO ESTATE, HIRAPUR ROAD, MOHOBBA BAZAR, RAIPUR 492001
261.	401974	Mr. VIJAY NISHITH SARAFI BAZAR RAJASTHAN, BARAN 325205	269.	402591	Mr. ANIL KRISHNA 112 PREMIER NAGAR ALIGARH 202001
262.	402083	Mr. JASORIA ASHISH B – 75 SURYA NAGAR GHAZIABAD 201011	270.	402604	Mr. BHOI SUNIL KUMAR "RAMA VATIKA" C – 1, 2 VINAYAK VIHAR, UNIVERSITY POST OFFICE, NEAR CENTURY COLONY, RAIPUR 492010
263.	402106	Mr. PANDEY ATUL KUMAR 1 ST FLOOR, DAK BUNGLOW KANPUR ROAD, AURAIYA 206122	271.	402632	Mr. MAHAWAR ASHISH 1 ST FLOOR MAHAVEER COMPLEX, RUSSEL CHOWK, JABALPUR 482001
264.	402197	Mr. ADITANI DILIP DEEP VILLA, 7 BUNGLOW NEAR RATHI AUTOMOBILES, BEWAR ROAD, AJMER 305001	272.	402667	Mr. MOHTA NAVEEN JAL NEECHE BHAJANA CHOWKI KABOORTON KA CHOWK, INSIDE JALORI GATE, JODHPUR 342001
265.	402241	Mr. PIPADA TRISHLA 4 SUBHASH CHOWK INDORE 452002			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
225.	400228	Ms. MEHTA MEGHNA 33 MEHTA'S TIMBA JAGDISH ROAD, UDAIPUR 313001	233.	400738	Mr. DHIRAJ SARAN 8B, CIRCUIT HOUSE AREA NORTH EAST, JAMSHEDPUR 831001
226.	400287	Mr. AGRAWAL SHRIKISHAN 610, VIDHYADHAR KA RASTA OPP AGRASEN PUBLIC SCHOOL, PRIMARY SECTION, JAIPUR 302003	234.	400742	Mr. SHARMA NISHANT D – 402, ARYAMAAN AWAS OPP. SAI BABA TEMPLE, NEAR DEVASHISH SCHOOL, RAMDEVNAGAR SATELITE, AHMEDABAD 380015
227.	400354	Mr. SARKAR SANTANU 42, JAWAHAR MARG OPP. POWER HOUSE, SANWAD 451111	235.	400754	Mr. VARMA PRAMOD KUMAR A 2C ALAKHRAJ APARTMENT EAST BORING CANAL ROAD, NEAR MAA SHADE COMPLEX, PATNA 800001
228.	400431	Mr. SUDEEP MOHAN 9 A, E – 15, 'C' BLOCK SHATABDI VIHAR, SECTOR 61, NODA 201307	236.	400760	Mr. JAJODIA NITIN 4 MANGAL COLONY GAYATRI NAGAR, AJMER ROAD, BEAWAR 30590 ,
229.	400465	Mr. RATTI RAHUL H NO 223/5 J K COLONY KANPUR 208010	237.	400858	Mr. SHARMA GAUTAM B – 12, BANDHAV GARH COLONY REWA 486006
230.	400640	Ms. GUPTA TRUPTI 153, VISHWAKARMA NAGAR, ANNPURNA ROAD, INDORE 452009	238.	400909	Mr. SHARMA SOMESH KUMAR 734 CIVIL LINES UNNAO 209801
231.	503283	Mr. AGRAWAL VIKAS K – 6, NAGAR NIGAM FLATS PATEL MARG, GHAZIABAD 201001	239.	400918	Ms. GOEL ANSHIKA 94 NAVYUG MARKET GHAZIABAD 201001
232.	400674	Mr. MISHRA AMBARISH OPPOSITE CANAL PFFICE PRAKASH NAGAR, CANAL ROAD, RAE BARELI 229001	240.	400926	Mr. SINGH BIBEK 117/82 – A SHAKTI NAGAR NEAR FAIZABAD ROAD, LUCKNOW 226016

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
273.	402703	Mr. MUNDRA MANISH LAXMI VIHAR PLOT NO. 23 – 24, RAM SHIV MANDIR STREET, NARAYAN COLONY, NAYAPURA, LAL SAGAR, JODHPUR	281.	403196	Mr. MUKTI LAL C/O BABU LAL AGRAWAL PLOT NO. C – 100 – 107 VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR 302001
274.	402755	Mr. AGARWAL MAN MOHAN 4/663 CHITRAKOOT AJMER ROAD, JAIPUR 302021	282.	403391	Mr. NEVATIA KRISHNE C/O MR SANJAY DODRAJKA EC – 295 MAYA ENCLAVE NEAR LAJWANTI CHOWK, NEW DELHI 110046
275.	402788	Mr. SHAH RAJESH HOUSE NO. 54 NEAR DEEP JYOTI SCHOOL, HIRAN MAGRI SECTOR – 14, UDAIPUR 313001	283.	500581	Mr. ARORA NAVEEN ROOM NO. 7, RAM TOURIST HOTEL, MAIN CHOURAHA, KASHIPUR 244713
276.	402824	Mr. KHAITAN MUKESH KUMAR S C MUKHERJEE ROAD MADHUPUR 815353	284.	500765	Mr. SINGHANIA RAHUL C/O O N G C LIMITED ROOM NO. 10 R O BUILDING, MAKARPURA ROAD, BARODA 390009
277.	402831	Mr. SINGH MUKESH KUMAR QR NO. 2116, SECTOR 12 – F BOKARO STEEL CITY 827012	285.	501397	Mr. JAIN RAHUL 2301, 1ST CROSSING M S B KA RASTA, JOHRI BAZAR, JAIPUR
278.	402846	Mr. MAHESHWARI JAI KISHAN M – 30 MAHESH COLONY TONK ROAD, JAIPUR 302015			ASHOK HALDIA Secy.
279.	402959	MR. AGARWAL KOSHAL KISHOR A – 154, PANI PETCH NEHRU NAGAR, JAIPUR 302016			
280.	402983	Mr. SINGHAL MANOJ KUMAR 140/1 SHASTRI NAGAR MEERUT			

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.